

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 613]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1607.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, गोविन्दगढ़, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, गोविन्दगढ़, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	पुष्पा शिवनारायण सोनी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	ममता योगेन्द्र सिंह तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मो. शकील	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जया पाण्डे पति नीरज पाण्डे	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती संतोष वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	ओम प्रकाश गुप्त (एड.)	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	राजमणि उर्फ राजू	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	प्रेमवती रामपाल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		पार्षद	8	आठ	रामनाथ	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	गंगा प्रसाद कोल	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	ओम शंकर गुप्ता	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	पूनम, उपेन्द्र द्विवेदी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	पदमा मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मजीदुन निशा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	मकरंन्द लाल	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीनिवास साकेत आत्मज श्री शंकर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1608.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, गूढ, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, गूढ, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	विष्णुप्रकाश मिश्र (छोटकुल)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सरोज शुक्ला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	रामबाई विश्वकर्मा	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	प्रदीप कुमार त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती गीता मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रीतू उपाध्याय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	महरूनिशा	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	छोटेराल साकेत	बहुजन समाज पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सोनू प्रसाद प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सेमिया बसोर	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		पार्षद	10	दस	राजकपूर मिश्र (कपूर)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शालेन्द्र सिंह	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	सरजू प्रसाद माली	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	जगदीश प्रसाद गौटिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	कृष्णा कुमारी कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	जयराम कुशवाहा	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1609.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बैकुण्ठपुर, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बैकुण्ठपुर, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	आदित्य प्रताप सिंह "भैय्या जी"	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सरोज कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	दशरथ कुमार	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शशिकला तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सविता	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	लक्ष्मी बाई	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रवि प्रताप सिंह "लाला"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	अरुण कुमार गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	आरती गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अजीत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	गुन्जा ताम्रकार	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	साधना गुप्ता	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13		पार्षद	12	बारह	संतोष कुमार कचेर	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	मो. याहिया	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कमल कुमारी	बहुजन समाज पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	संगीता सोनी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1610.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, हनुमना, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, हनुमना, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	पूनम गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	तवस्सुम बेगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	कुसुम सिंह पति रावेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	चन्द्रकली प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सोनु केशरी एडवोकेट (आशुतोष) पिता वैकटेशदास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	रामकली पति नाथू	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती रामरती साकेत	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	रमा	समाजवादी पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नीशा सिंह पति श्री राजबहादुर सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सुशीला जायसवाल पति सुखसागर जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शारदा प्रसाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मोहन लाल कचेर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ओम प्रकाश गुप्त (ओपी)	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14		पार्षद	13	तेरह	प्रदीप कुमार (संजू) पिता रामदरश	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती वेदवती मिश्रा पति श्री ब्रह्म दत्त मिश्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विन्धेश्वरी कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1611.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मउगंज, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मउगंज जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती चंद्रप्रभा गुप्ता पुत्रवधू (बाबूलाल डीलर)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती श्याम कली पटेल पत्नी जेबलाल पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती मानवती साकेत पत्नी श्री सुन्दरलाल साकेत	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	करुणा पटेल	बहुजन समाज पार्टी
5		पार्षद	4	चार	बृजेश कुमार गुप्ता उर्फ गोरे	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती बबिता चौरसिया पत्नी श्री अनिल कुमार चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मीना वर्मा पति श्री राजेश कुमार वर्मा	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	अब्दुल कयूम सिद्दीकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	कृष्णा मिश्रा पति संजय कुमार मिश्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती चन्द्रवती द्विवेदी पत्नी श्री चंद्रप्रताप द्विवेदी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	मो. वारिस उर्फ लाला पुत्र एतवारी खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12		पार्षद	11	ग्यारह	गुरुसेन कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती शशिकला दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	रामलाल प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	करुणा देवी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	लालमणि सोधिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1612.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, त्योंथर, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, त्योंथर, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	सुनीता देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	गुड्डन	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	सुशीला प्रजापति पति मोहन	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अनिल तिवारी तनय श्री रामसिया तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सोनिया बेगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	शिवशंकर विश्वकर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	मदन लाल दिपांकर पिता श्री गणेश	बहुजन समाज पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रामचरण साकेत	बहुजन समाज पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नीता शुक्ला पति श्री विनोद कुमार शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	उमा देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मैना कुमारी कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	राजेश कुमार पिता भैयालाल मल्लाह	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	प्रतिमा सिंह सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14		पार्षद	13	तेरह	आदित्यनारायण पिता भोलानाथ	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	प्रहलाद तिवारी पिता रामजी तिवारी	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्याम कली तिवारी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1613.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सेमरिया, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सेमरिया, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	अजय शुक्ला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	संतोष	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	समा खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	सुशीला शुक्ला पति लक्ष्मीकान्त (मुन्ना चूदी)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	कौशल प्रसाद साहू	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	कुंजबिहारी बसोर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	लल्लू कोल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	विमला कुशवाहा	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	सकुन्तला पाण्डेय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	रेसमा वानो	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	नीलू सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	राधा देवी-मुनेन्द्र सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	रामाधार गुप्ता पिता रामशरण गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14		पार्षद	13	तेरह	राजेश कुमार कुशवाहा	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	रामकरण दिवेदी तनय श्री श्यामसुंदर दिवेदी	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	शिवरानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1614.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नईगढी, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, नईगढी, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	हर्षवर्धन सिंह उर्फ बबलू भईया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रामाश्रय शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	ममता पटेल	बहुजन समाज पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती गुलाबकली प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	निर्मला देवी पटेल	बहुजन समाज पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अरुण प्रताप पटेल	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	बालमीक प्रसाद पटेल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सरिता विश्वकर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	ब्रिजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	बालेन्द्र शेषर त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्रीमती कौशिल्या देवी गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती मक्तूबुन्निसा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	इरफान खां उर्फ रोशन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मिठाईलाल बसोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	सुनीता पति सुरेश कोल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विनोद कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1615.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सिरमौर, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सिरमौर, जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	शांति चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कामद नाथ पाण्डेय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	दीपिका दाहिया	बहुजन समाज पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जानकी सब्जी वाले	बहुजन समाज पार्टी
5		पार्षद	4	चार	नीलम प्रबल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती राजकुमारी कोल पति श्री रजउ कोल	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कमलेश कुमार कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	प्रेमा देवी साकेत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती लीलावती गुसा	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	अनूपा वती सेन	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	भूषण कोल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	बृजेश पाण्डेय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	संगीता लोध	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	लल्लू प्रसाद लोध	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	राजेश कुमार सेन	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राज कुमार शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1616.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मनगंवा, जिला रीवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मनगंवा जिला रीवा.	अध्यक्ष	-	-	“श्रीमती सीता साकेत”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	“लालजी कोल”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	समापरवीन	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रामयश कोरी पिता रामाधीन	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	“श्रीमती ममता वर्मा”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सबाना	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	“विनोद नामदेव”	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	“श्रीमती पप्पी साकेत”	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	“छेदीलाल साकेत”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	रूपाली रवि अवधिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	राजेन्द्र जोगी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सोमवती मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रामप्रसाद पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	रामबहोर गुप्ता (मोलई)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	प्रमोद उर्मलिया (बबलू)	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कुसुमलता वर्मा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1617.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चंदिया, जिला उमरिया के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	नगर परिषद्, चंदिया, जिला उमरिया.	अध्यक्ष	-	-	सरस्वती सुमन्त मांझी	निर्दलीय
---	-------------------------------------	---------	---	---	----------------------	----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	माया रजक (देला)	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	अभयरज चौधरी	बहुजन समाज पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शोभा बाई हरिजन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अलमा साहीन W/o मुनउवर अली	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	प्रेमलता अग्रवाल "रहलीवाली"	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अनुपम चतुर्वेदी (अन्नू चौबे)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	द्रोपती कोल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	पुरुषोत्तम कोल "कंजा"	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	"ममता यादव" अहीर	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	"बाई ज्ञान गुलाब कोल"	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	संध्या यादव	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	हेमन्त कुमार कुशवाहा S/o रामकृपाल कुशवाहा	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	बाबू सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	झल्लू कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मो. इसरत खान "राजा"	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1618.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, नौरोजाबाद, जिला उमरिया के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, नौरोजाबाद जिला उमरिया.	अध्यक्ष	-	-	सुमन गौटिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	गोविन्द सिंह मेश्राम	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	संगीता पति नत्थू लाल उर्फ कोदू	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		पार्षद	3	तीन	झाला नरेश	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	फुलमंती बैगा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	'रामकुमार' रामू	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती अर्चना यादव (अंजू)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	आरती यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	सुभाष नारायण सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	शशी चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	रश्मि तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	केशकली केशव प्रसाद पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	बजरूद्दीन उर्फ बज्जू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	सकुन उनियाल (लव)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	गेंद लाल झारिया उर्फ चीनी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनीता बाई मार्को	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1619.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, खरगौन, जिला खरगौन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, खरगौन, जिला खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	विपीन कुमार गौर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	दीपक चौरै	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	बेबी पगारे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	लोकेश जगदीश भावसार	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	पायल पवन सेन	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		पार्षद	5	पांच	कन्हैया कोठाने	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	विरेन्द्रसिंह पुरुषोत्तम सिंह भदौरिया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	भगवान सोलंकी विटठल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	ललीता गोपाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुनिता जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	किशोर दशरथ राठोर (पुजारी)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रुक्य्याबानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	वैशाली निलेश सरकानुनगों	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	गायत्री हरिश गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	खुमान सिंह दरबार (बालके) रामकिशन.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अयाज अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	अलीम शेख	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	छाया जोशी	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	विकास पुलोरिया (विक्की)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	राजेन्द्र पटेल	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	रूपसिंग दांगी	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	कृष्णकांत कोटे	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	पार्वतीबाई वर्मा (पारुमाय)	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	बेगम बी असलम चौबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	कान्ता सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
26		पार्षद	25	पच्चीस	जुलेखां बी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27		पार्षद	26	छब्बीस	सलीम सदर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
28		पार्षद	27	सत्ताईस	अल्ताफ आजाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	जितेन्द्र चौपडा (लक्की)	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	नन्दा प्रजापालसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	लक्ष्मण इंगले (लच्छु)	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	बेबी बाई मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	सुनंदा कराले	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	नीला बाड़े सांवले	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1620.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, सनावद, जिला खरगौन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगरपालिका परिषद्, सनावद, जिला खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	नरेन्द्र शर्मा (लाली)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	मीना नरेन्द्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमति श्वेता पति सुनिल व्यास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति शीतल पति जय शिन्दे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	जरार पेंटर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	शेख शाकेरिन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्याम कुमार पिता बालाराम पुरोहित	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	चेतना बाई पति पवन कुमार जैन	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	अफसाना बी पति रियाज बेग	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	हेमलता पति रामचन्द्र प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कपिल जटाले	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति कौशल्या पति केदार पण्डित	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	दिनेश राज पिता मूलचन्द्र राज	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति अनुराधा पति मुकेश कौशल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	गजेन्द्र कमलचंद पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अमरदीप कौर तेजेन्द्रपाल सिंह कपूर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	राधेश्याम पिता बाबूलाल देसाई	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	राजेन्द्र सिंह परिहार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठारह	विजय चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1621.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, बड़वाह, जिला खरगौन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, बड़वाह, जिला खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	प्रिती अनिल राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	संगीता मुकेश चौहान	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	घनश्याम शारदिया	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	राजेश सराफ	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	राजेंद्र जगदीश गौहर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	पिंकी चंद्रशेखर मालाकार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	गणेश पटेल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	गणेश चौहान (हलवाई)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	उषा प्रतापसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सेवकराम पाटीदार (गुर्जर)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	राजल राकेश गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रिती पति अनिल चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	लीलाबाई रमेशचंद्र वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रघुनाथ मंगलजी जाट	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	गायत्री नरेन्द्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कृष्णपाल सिंह तोमर "जिम्मी भैया"	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	साबीर खान	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	शबाना	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	अनिता सुनिल यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1622.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कसरावद, जिला खरगौन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कसरावद, जिला खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	सुरेन्द्र पाटीदार 'गुरु'	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	शांतिलाल टिकावदे	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	आशा बाई महादेव	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रूक्को शेख ठेकेदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	मोहन भोलुराम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	विजय ताराचंद राठौड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	मोहन गंगाराम सिसोदिया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	संतोषी श्यामलाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	गंगाबाई राजाराम वर्मा 'भूरिया'	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	प्रतिभा संजय जैन पटवा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शांता बाई शंकरलाल पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मो. मुजाहिद खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	संगीता बलराम कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुदीप गौरीशंकर रावल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कमलेश पाटीदार बोंगां	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मिनाक्षी नरेंद्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1623.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, करही पाडल्याखुर्द, जिला खरगौन के माह

दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, करही पाडल्याखुर्द, जिला खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	आशा प्रेमचंद वासुरे	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	प्रेमचंद अमोलकचंद	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	अमरसिंह किरेशिंह	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जितेन्द्र वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	राधा मदन नायक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	महेंद्र गंगाधर सोनी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	महेश शोभाराम	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	संगीता पति शांतिलाल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	किरण कन्हैया पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	धवलीबाई पति श्री रामसिंह हिरवे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	भारती प्रभूलाल पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	संतोषी निर्मल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ज्योति रमेश वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	छोटु इमाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	वीरचन्द्र अमोलकचंद छाजेड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	धनसिंह पिता शोभाराम	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.